



**सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान**  
**विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001**  
**CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH**  
**Vishvigyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow -226001**



**विज्ञापन सं./Advt. No.: IITR/Project Staff/05/2025**  
**वाक-इन-इंटरव्यू/Walk-in-Interview**

**विभिन्न परियोजनाओं के तहत प्रोजेक्ट स्टाफ के आबंध हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू**  
**Walk-in-interview for Engagement of Project Staff under Projects**

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Date &amp; Time of Interview</b> | <b>Project Staff: Date: 04.12.2025 Time: 9:00 A.M.</b>         |
| <b>Venue of Interview</b>           | <b>CSIR- Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.</b> |

The Indian Institute of Toxicology Research (IITR), established in 1965, a constituent laboratory of Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) engaged in the Research & Development in the areas of Environmental Toxicology, Predictive Toxicology, Health Risk Assessment, Preventive Toxicology, Inhalation Toxicology, Analytical Toxicology, and also National S&T Missions. IITR has two campuses; the main campus is located at the centre of Lucknow City and the other campus at a distance of approx. 20 km from the main campus.

Eligible and interested candidates may attend the interview for purely temporary engagement as **Project Staff** under CSIR/externally funded Projects tenable at CSIR-Indian Institute of Toxicology research, Lucknow. Project wise vacancy positions, date of Interview and qualification details are as under:-

| <b>Sr. No</b> | <b>Name &amp; No. of Position</b>                             | <b>Qualification &amp; Experience</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Job Description</b>                                 | <b>Monthly Emoluments (Rs.)</b>           | <b>Upper Age Limit</b>                                                                                                                                                | <b>Project No. and title of the Project</b>                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>     | Principal Project Associate<br><br><b>SSP-521</b><br><br>(01) | <b>Essential Qualification:</b><br><br>Master's Degree in Biotechnology/Microbiology from a recognized University or Equivalent <b>AND</b> Six(6) years of experience.<br><br><b>OR</b> PhD in Biotechnology/Microbiology with 3 years of experience in Research and Development in Industry, Academic institutions or Science and Technology Organizations and Scientific activities and services.<br><br><b>Desirable Qualification:</b><br><br>Research experience in the area of molecular biology and experience in handling of cloning vectors etc. | To conduct the in-vitro studies using cloning vectors. | <b>Rs.49,000/+(20%) HRA</b><br>Per month. | <b>40 years</b><br><br>Relaxable upto 5 years in case of SC/ST, physically handicapped and female candidates and 3 years in case of OBC(Non-Creamy Layer) candidates. | <b>SSP-521</b><br><br>"In vitro Toxicity studies of Drug Molecule" |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Project Technical Support – II<br><br><b>GAP-466</b><br><br>(01)  | <p><b>Essential Qualification:</b></p> <p>Graduation with biological sciences/biotechnology/Medical Laboratory Techniques from a recognized university or equivalent, <b>With 2 Years</b> research/industrial experience in working with cell culture/molecular biology.</p> <p><b>Desirable Qualification:</b></p> <p>The preference will be given to the candidates having the working experience with primary cultures/immortalized cell lines of human and animal origin will be given the preference.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The candidate is supposed to assist in the cell culture work and other molecular biology experiments.                                                                                                                 | <b>Rs.20,000/-+ (20%) HRA</b><br>Per month. | <b>30 years</b><br><br>Relaxable upto 5 years in case of SC/ST, physically handicapped and female candidates and 3 years in case of OBC(Non-Creamy Layer) candidates. | <b>GAP-466</b><br><br>“Designing a novel miRNA-based antisense oligonucleotide targeted therapy for Amyotrophic Lateral Sclerosis.” |
| 3. | Project Research Scientist – II<br><br><b>GAP-466</b><br><br>(02) | <p><b>Essential Qualification:</b></p> <p>Master's degree in Biotechnology from a recognized university or equivalent <b>AND 3 Years</b> of experience in Research and Development in Industry, Academic Institutions, or Science and Technology Organizations, and Scientific activities and services <b>OR</b> PhD in Biological Science/Biotechnology.</p> <p><b>Desirable Qualification:</b></p> <p>Research experience in experimentation using immortalized cells and primary cultures of human and animal origin, stem cells, induced pluripotent stem cells, 3D spheroid/organoid cultures etc. Handling experience and data interpretation of transfection over-expression/knockdown/knockout technologies, genome and proteome analysis, cellular kinetics etc. The candidate should have hands-on experience in in-vivo laboratory animal handling, perfusion techniques and neurobehavioral experiments.</p> | The candidate is supposed to work with in-vitro studies using 2D and 3D stem cell/Ipsc-derived models to investigate the mechanistic insights of xenobiotics-mediated toxicity, and also perform in vivo experiments. | <b>Rs.67,000/-+ (20%) HRA</b><br>Per month. | <b>40 years</b><br><br>Relaxable upto 5 years in case of SC/ST, physically handicapped and female candidates and 3 years in case of OBC(Non-Creamy Layer) candidates. | <b>GAP-466</b><br><br>“Designing a novel miRNA-based antisense oligonucleotide targeted therapy for Amyotrophic Lateral Sclerosis.” |

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Project-JRF(Junior Research Fellow)<br><br><b>GAP-451</b><br><br>(01) | <b>Essential Qualification:</b><br>Master's Degree in Zoology/Biochemistry/Biotechnology/Animal Sciences <b>With</b> GATE/NET-LS/ICMR-JRF/Biotechnology eligibility test.          | Carried out the proposed research work.                | 1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> year <b>Rs. 37,000/-+ HRA</b> per month; 3 <sup>rd</sup> year <b>Rs. 42,000/-+HRA</b> Per Month. | <b>35 years</b><br><br>Relaxable upto 5 years in case of SC/ST, physically handicapped and female candidates and 3 years in case of OBC (Non-Creamy Layer) candidates. | <b>GAP-451</b><br><br>"Arsenic-Mediated epigenetic regulation of PU.1 and its impact on microglial phagocytosis." |
| 5. | Project Associate-II<br><br><b>GAP-168</b><br><br>(01)                | <b>Essential Qualification:</b><br>M.Pharm(Pharmacology/Pharmaceutical analysis).<br><br><b>Desirable Qualification:</b><br>Experience in the field of Pesticide residue analysis. | Pesticide residue analysis and food sample collection. | <b>Rs. 28,000/+ HRA</b> Per month.                                                                                                   | <b>35 years</b><br><br>Relaxable upto 5 years in case of SC/ST, physically handicapped and female candidates and 3 years in case of OBC(Non-Creamy Layer) candidates.  | <b>GAP-168</b><br><br>"Monitoring of pesticide residues at National level"                                        |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6. | Project Associate-I<br><br><b>SSP-528</b><br><br>(01) | <b>Essential Qualification:</b><br>Master's degree in Life Sciences / Chemistry.<br><br><b>Desirable Qualification:</b><br>Experience in plastic leaching studies, metal analysis and analytical equipments like ICP-MS/ AAS. | Plastic leaching studies, metal analysis and analytical equipments like ICP-MS/ AAS. | <b>Rs.</b><br><b>25,000/+ HR</b><br>A Per month. | <b>35 years</b><br><br>Relaxable upto 5 years in case of SC/ST, physically handicapped and female candidates and 3 years in case of OBC(Non-Creamy Layer) candidates. | <b>SSP-528</b><br><br>"Test for microplastics of PLA compound" |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

अर्ह अभ्यर्थियों को प्रातः 9.00 बजे साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करना होगा। प्रातः 10.00 बजे के पश्चात अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को उपर्युक्त तिथि एवं समय पर चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ 226001 में उपस्थित होना है। अर्ह अभ्यर्थी पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र (जोकि संस्थान की वेबसाइट [www.iitrindia.res.in](http://www.iitrindia.res.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) के साथ स्वप्रमाणित अंक तालिकाओं/प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियों व नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी के पास मूल प्रमाण पत्र होने पर ही साक्षात्कार में शामिल किया जायेगा।

Eligible candidates will have to report for interview at 9.00 AM. Candidates will not be allowed to attend the interview after 10.00 am. The candidates have to appear for the interview before the selection committee on the above date and time at CSIR-Indian Toxicological Research Institute, Toxicology Bhawan, 31 Mahatma Gandhi Marg Lucknow 226001. Eligible candidates will appear along with the duly filled application form (which can be downloaded from the Institute's website [www.iitrindia.org](http://www.iitrindia.org)) along with attested copies of mark sheets/certificates and latest passport size photograph. The candidate will be called for the interview only if he/she is in possession of the original certificates.

सामान्य शर्तें:-

1. विभिन्न परियोजनाओं के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों को भविष्य की आवश्यकता के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।
2. आयु/अर्हता एवं अनुभव निर्धारण की तिथि साक्षात्कार की तिथि होगी।
3. किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी विहित हो, उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद गिनी जाएगी।
4. उपर्युक्त पद पूर्णतः अस्थायी तथा उल्लिखित परियोजनाओं की सहसामयिक साथ-साथ समाप्त होगी।
5. उक्त परियोजनाओं में आबंधन से अभ्यर्थियों का सीएसआईआर/आईआईटीआर के पदों के सापेक्ष नियमितीकरण हेतु कोई अंतर्निहित अथवा प्रकट अधिकार नहीं होगा।
6. विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष पदों की संख्या चयन के समय संस्थान की आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है।
7. साक्षात्कार में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. अभ्यर्थी अपने शैक्षिक/अनुभव मूल प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लायें। ऐसा न होने की स्थिति में उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।
10. किसी परियोजना में पद के लिए आवश्यक अनुभव केवल न्यूनतम निर्धारित योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा।

**General Conditions:**

1. Suitable Candidates may be empanelled for future requirement if any, under different projects.
2. The date for determining age/qualification and experience shall be the date of interview.
3. The period of experience in a discipline/area of work, wherever prescribed, shall be counted after the date of acquiring the minimum prescribed educational qualifications prescribed for that Post.
4. The above positions are purely temporary and co-terminus with the aforementioned projects.
5. The engagement in these projects will not confer any right implicit or explicit on the candidate for consideration for regularization against any CSIR/IITR post(s).
6. The number of positions against the various projects can vary at the time of selection depending on the requirement of the institute.
7. No TA/DA will be paid to the candidates for attending the interview.
8. No correspondence will be entertained through any medium regarding the advertisement.
9. Candidates must bring their original educational/experience certificates with them. Otherwise, they will not be allowed in the interview.
10. For a position in a project, required experience shall be counted only after the candidate has acquired the minimum prescribed qualification.

**Candidates are advised to constantly keep on visiting CSIR-IITR website at [www.iitr.res.in](http://www.iitr.res.in) for any update/change in the matter.**

**Sd/-  
Administrative Officer  
CSIR-IITR**



**सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान**  
**विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001**  
**CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH**  
**Vishvigyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow -226001**



**आवेदन पत्र / APPLICATION FORM**

|                                                                                                                                                       |                                                         |                                                         |                                                                                                  |                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. विज्ञापन सं. /Advt. No.                                                                                                                            |                                                         |                                                         |                                                                                                  |                                         |                                        |
| 2. आवेदित पद/Post applied for                                                                                                                         |                                                         |                                                         |                                                                                                  |                                         |                                        |
| 3. नाम/Name                                                                                                                                           |                                                         |                                                         |                                                                                                  |                                         |                                        |
| 4. लिंग/Sex (पुरुष/ स्त्री<br>Male/Female)                                                                                                            |                                                         |                                                         |                                                                                                  |                                         |                                        |
| 5. राष्ट्रियता/ Nationality<br>(बताएं- जन्म / निवास स्थान से)<br>(mention by Birth / Domicile)                                                        |                                                         |                                                         |                                                                                                  |                                         |                                        |
| 6. जन्म तिथि (एसएसएलसी प्रमाणपत्र के अनुसार)<br>Date of Birth (As per SSLC<br>Certificate)                                                            | <input type="text"/> <input type="text"/><br>दिन/Day    | <input type="text"/> <input type="text"/><br>माह/Month  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><br>वर्ष/Year |                                         |                                        |
| 7. आयु ( वाक इन इंटरव्यू की तारीख को)<br>Age (as on date of Walk-in-<br>Interview)                                                                    | <input type="text"/> <input type="text"/><br>वर्ष/Years | <input type="text"/> <input type="text"/><br>माह/Months | <input type="text"/> <input type="text"/><br>दिन/Days                                            |                                         |                                        |
| 8. श्रेणी/Category                                                                                                                                    | अ.जा.<br>SC<br><input type="text"/>                     | अ.ज.जा.<br>ST<br><input type="text"/>                   | अ.पि.व.<br>OBC<br><input type="text"/>                                                           | अनारक्षित<br>UR<br><input type="text"/> | अन्य<br>Others<br><input type="text"/> |
| 9. फोन नंबर और ईमेल पते के साथ वर्तमान डाक पता (संचार के लिए ) /<br>Present Postal Address with Phone Number & e- mail address<br>(for communication) |                                                         |                                                         |                                                                                                  |                                         |                                        |
|                                                                                                                                                       | फोन/<br>Phone:                                          | <input type="text"/>                                    | ई.मेल/<br>e-mail:                                                                                | <input type="text"/>                    |                                        |
| 10. स्थायी पता /Permanent Address                                                                                                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                  |                                         |                                        |
| 11. CSIR/UGC-NET etc.                                                                                                                                 |                                                         |                                                         |                                                                                                  |                                         |                                        |

चिपकायें/Affix your  
recent colour  
passport size

|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 12. एसएसएलसी /दसवीं के बाद से शुरू मान्यता प्राप्त शैक्षिक/ व्यावसायिक योग्यता (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें) Recognized Educational/Professional Qualification commencing from SSLC / Xth onwards (Enclose documentary proof) |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
| परीक्षा /उपाधि<br>Examination/Degree                                                                                                                                                                                           | बोर्ड /विश्वविद्यालय<br>Board/Univ. | विषय/Subject                                                       | उत्तीर्ण होने का वर्ष<br>Year of passing  | वर्ग/डिवीजन<br>Class/Div.                   | अंकों का % या जीपीए<br>Marks(%) or GPA            |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
| 13. कार्य अनुभव (यदि हो तो) का विवरण: Details of work experience (if any):                                                                                                                                                     |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
| अवधि/Period                                                                                                                                                                                                                    |                                     | संगठन का नाम व स्थान<br>Name of Organisation & Place               | पदनाम व धारित पद<br>Designation/Post held | आहरित कुल वेतन/<br>Gross Pay drawn (in Rs.) | स्थायी या अस्थायी<br>Whether Permanent/ Temporary |
| से/From                                                                                                                                                                                                                        | तक/To                               |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
| 13. सीएसआईआर/आईआईटीआर में काम कर रहे निकट रिश्तेदारों का विवरण, यदि कोई हो<br>Particulars of close relatives, working in CSIR-IITR, if any                                                                                     |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |
| रिश्तेदार का नाम और रिश्ता/<br>Name of relative & Relation                                                                                                                                                                     |                                     | पद और प्रयोगशाला/संस्थान का नाम<br>Position & Name of Lab./Instit. |                                           | प्रभाग/ अनुभाग Division/Section             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                    |                                           |                                             |                                                   |

**घोषणा/ DECLARATION**

मैं समझता/समझती हूँ कि संविदात्मक नियुक्ति बिलकुल अस्थायी है और मैं इसके द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही और तथ्यों के लिए सच है और मैं ने कुछ भी छुपाया / गलत बयान नहीं किया है। मैं इसके बारे में जागरूक हूँ कि किसी भी समय अगर किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में मेरे द्वारा दी गयी जानकारी छुपाया / गलत बयान पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति सरसरी तौर पर बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है / I understand that the contractual appointment is purely temporary and I hereby declare that the information given above is correct, true to facts and nothing has been concealed / distorted. I am aware that, if at any time I am found to have concealed/distorted any material information, my candidature/engagement is liable to be summarily terminated without notice.

तारीख/Date: \_\_\_\_\_

स्थान/Place : \_\_\_\_\_

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर/Signature of Candidate)